

## ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय-हिन्दी

कक्षा-4

Assignment अप्रैल 2021-22

प्रश्न-1 निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

बाल-दिवस 14 नवम्बर को मनाया जाता है | इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था | नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे अतः हम उनके जन्मदिन को 'बाल-दिवस' के रूप में मनाते हैं | यह दिन बच्चों के लिए खुशी का होता है | इस दिन सभी विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें बच्चे उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं | देश की राजधानी दिल्ली में बाल-दिवस नेशनल स्टेडियम में मनाया जाता है | प्रत्येक विद्यालय से चुने हुए बच्चे यहाँ आकार आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं | इसके अतिरिक्त देश के प्रत्येक राज्य में बाल-दिवस की धूमधाम होती है |

क) बाल-दिवस क्यों मनाया जाता है ?

ख) देश की राजधानी दिल्ली एवं विद्यालयों में बाल दिवस के आयोजन के लिए क्या-क्या तैयारियाँ की जाती हैं ?

ग) कोई-दो संज्ञा एवं दो सर्वनाम शब्दों को ढूँढकर लिखिए।

प्रश्न-2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए |

(क) वैद्य जी ने बीमारी दूर करने हेतु कौन-सी तरकीब बताई ?

(ख) 'हिंद देश के निवासी' कविता से आपको क्या सीख मिलती है ?

(ग) छाल लाने में आकाश ने किन-किन मुसीबतों का सामना किया ?

(घ) 'हिंद देश के निवासी' कविता के आधार पर बताएँ कि किन-किन नदियों का सागर में संगम होता है ?

प्रश्न-3 निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए |

मराठी , अंग्रेज़ी , पंजाबी

प्रश्न-4 निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए |

बिमारी , स्वास्थ्य, विकाश , दुस्कर

प्रश्न-5 निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग-अलग करके लिखिए |

विकसित , बंदर , मित्रता , मुकाबला

प्रश्न-6 'अनुशासन का महत्त्व' विषय पर 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए |

प्रश्न-7 समय की उपयोगिता के बारे में बताते हुए छोटी बहन को पत्र लिखिए |